

एक किलो नकली घी 80 रुपए में तैयार हो जाता, उसे बेचते थे 200 से 250 रुपए में

Dungarpur News - भास्कर संवाददाता | डूंगरपुर शहर के पद्मावती ट्रेडिंग कंपनी की दुकान पर बनाए जा रहे नकली मिल्क फूड घी के मामले...

Jan 03, 2020, 08:05 AM IST

भास्कर संवाददाता | डूंगरपुर

शहर के पद्मावती ट्रेडिंग कंपनी की दुकान पर बनाए जा रहे नकली मिल्क फूड घी के मामले में भास्कर की पड़ताल में नई जानकारी सामने आई है। नकली घी शहर के कुछ व्यापारियों को 130 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जा रहा था। फिर यही व्यापारी 200 से 250 रुपए के हिसाब से अगे बेचते। नकली घी कारोबार को बनाए रखने के लिए शहर में सब एजेंट बनाए गए थे। यही एजेंट गांवों में खुला घी बेचने का काम करते थे। हालांकि बुधवार को पुलिस की कार्रवाई के बाद शहर के पद्मावती ट्रेडिंग से घी खरीदने वाले चार से पांच सब एजेंट भूमिगत हो गए हैं। वहीं गुरुवार को आरोपी हर्ष पुत्र प्रवेश जैन, निर्मल पुत्र प्रवेश जैन को कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। जहां एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अब आरोपी से पूछताछ में अन्य जानकारी सामने आएगी। इनसे पूछताछ करने पर यहां से घी खरीदने वाले सब एजेंट व बड़े रिटेलर का नाम सामने आएगा पुलिस ने प्रारंभिक पड़ताल में बताया कि रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल, एसेंस मिलाकर करीब 80 रुपये में एक किलो घी तैयार हो जाता है। पद्मावती ट्रेडिंग कंपनी के हर्ष और निर्मल स्वयं अपनी दुकान पर इस घी को 200 से 250 तक बेचने का काम करते थे। वहीं शहर के कुछ बड़े व्यापारी इनसे 130 रुपये किलो के हिसाब से घी ले जाते थे। ऐसे में लोगों की सेहत के साथ समझौता एवं जिंदगी से खिलवाड़ करने का काम चल रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मिल्क फूड का घी जिले में सिर्फ एक ही डीलर है। नकली घी के बारे में उन्हें भी कुछ पता नहीं था। पुलिस ने संबंधित डीलर को बुलाकर जानकारी ली है और इस ब्रांड के घी की बिक्री के बारे में जानकारी ले रही हैं। साथ ही मिल्क फूड कंपनी के संचालकों से भी संपर्क किया जा रहा है।

Source: <https://www.bhaskar.com/rajasthan/dungarpur/news/rajasthan-news-a-fort-fake-ghee-was-prepared-for-80-rupees-used-to-sell-it-for-200-to-250-rupees-080528-6301900.html>